


35 पोषक तत्वों की सेना



डेली हेल्थ सप्लीमेंट में



49 पोषक तत्वों के संभावित लाभ

K
Knowledge



I
Immunity



D
Development



S
Strength



विटामिन्स - मिनरल्स के अलावा 4 विशेष लाभदायक तत्व भी हैं



FOREVER
NaturalCare





पोषक तत्वों की सेना

आपके शरीर को निरंतर स्वस्थ व सक्रिय रखने में सहायक हो सकते हैं



जर्व
स्टेमिना



मानसिक
कार्यक्षमता



मजबूत
ठड़िडयां व
मांसपेशियां



रोगप्रतिरोधक
क्षमता



**लड़कियों कि 13 - 14 वर्ष की उम्र के बाद पोषण
की जरूरतें माहवारी शुरू होने के बाद बदल जाती हैं**



आयरन व फोलिक एसिड के लिए
अधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियाँ
फल, सूखे-मेवे, चने आदि जरूरी हैं



एक ही परिवार के लड़कों व लड़कियों के पोषण में अंतर क्यों होना चाहिए ?



6 बोटेनिकल्स



14 फलों के सत्त्व



भारत में पहली बार
महिलाओं के लिए उपयुक्त व्यूद्धीशनल सप्लीमेंट



53

Nutrients

पोषक तत्वों की सेना

आपके शरीर को निरंतर स्वस्थ रखने में सहायक



मजबूत
ठड़ियां
व जोड़




स्वस्थ त्वचा



नियमित
मासिक चक



जर्ज व
स्ट्रेमिना




हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहता है



उनके
बेहतर भविष्य
के लिए शुरूआत
से ही अच्छी
शिक्षा जरूरी है

स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रीशन आवश्यक है



न्यूट्रीशन



हेल्थ

खुशियां

बच्चे नाजुक होते हैं जल्द बीमार पड़ते हैं



जिंदगी बिना न्यूट्रीशन के



जिंदगी



- स्वस्थ रहें व लोगों को स्वस्थ बनाएं
- सांइटिफिक हेल्थ सप्लीमेंट - भोजन के साथ लेना फायदेमंद है




कई बुरी आदतें
आपने आसानी
से स्वीकारी ...

हमारी आयु बढ़ रही है पर बुद्धापा जल्द आ रहा है



भारतीयों की औसत आयु



पाचन क्या है?

भोजन से पोषक तत्वों को
ग्रहण करने की क्षमता

यह क्षमता उम्र के बढ़ने
के साथ कम हो जाती है



न्यूट्रीशनल विज्ञान क्या है ?



आहार में टमाटर का उपयोग



फूड न्यूट्रीशन

टमाटर के पेरस्ट या प्यूरी का उपयोग



फूड टेक्नोलोजी से न्यूट्रीशन

टमाटर से एक उपयोगी व लाभदायक शुद्ध तत्व

निकालना लायकोपीन



न्यूट्रीशनल विज्ञान

लायकोपीन बनाने का तरीका


FOREVER
NaturalCare



आरडीए क्या है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दैनिक आहार में प्रोटीन, विटामिन्स व मिनरल्स आदि की उचित मात्रा लेने के लिए गाइडलाइन्स निर्धारित की हैं जिन्हें **रिकमॅंड डायटी अलाउंसेस आरडीए** कहते हैं

आरडीए हमें बताता है कि हम



क्या आएं	कितना आएं	और कब तक आएं
विटामिन B12	1 mcg	
विटामिन C	40 mg	पूरी उम्र
विटामिन B1	1.4 mg	रोज खाएं
प्रोटीन	60 g	

शरीर के लिए आवश्यक 7 तत्व



हमारे आहार में ये तीन पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में रहते हैं

फैट

योजाना 20-30 ग्राम*



चावल



कार्बोहाइड्रेट्स

योजाना 250-270 ग्राम**

**8 गिलास
पानी**



* 1800 क्लोरीज के आधार पर



दिखने वाला फैट*

आहार के ये चार तत्व हम कम मात्रा में लेते हैं



प्रोटीन

60 ग्राम रोजाना



विटामिन्स

13 तरह के विटामिन्स



मिनरल्स

15 तरह के मिनरल्स



फायबर

25 से 30 ग्राम रोजाना



आप हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं?

कंपनी अपने
मुनाफे के लिए
कह रही है



इन्हें न
लेने से
कुछ नहीं
होगा



दवाई है, बीमार
होंगा तभी लूँगा



मुझे बुकसान होगा
या आदत पड़ जाएगी





पहला सुख
निरोगी काया -
हम ये जानते हैं,
मानते हैं

लेकिन हम क्या
उसके लिए कुछ
करते हैं?

सक्रिय रह कर व
संतुलित पोषण लेकर ही हम देर तक स्वस्थ रह सकते हैं



जवाँ रहना केवल सुंदर दिखना नहीं है

शरीर के हर अंग का ठीक से कार्य करना जरूरी है



हमें गर्व होता है अपने माता पिता को सहारा देकर

हम वही असंतुलित खाना खे हैं
जो हमारे माता-पिता ने खाया ...

... तो हमारे साथ वही होगा जो
उनके साथ हुआ



लेकिन हम यह मानते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा

लेकिन आप खुद अपने बच्चों पर निर्भर होना चाहेंगे क्या ?



प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व




प्रोटीन




प्रोटीन के कार्य



मसल्स को कायम
रखने के लिए



शारीरिक अंगों का
रखरखाव



रोग-प्रतिरोधक
क्षमता



शारीरिक मजबूती



गेहूँ व चावल हमारे आहार का आधार हैं

लेकिन योटी या चावल से अक्सर पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता ...




... और जो मिलता है उसकी गुणवत्ता भी कम है

भारतीय भोजन में प्रोटीन की कमी



प्रोटीन	
दाल (1 कटोरी)	4 g
आलू सब्जी (1 कटोरी)	प्रोटीन नहीं है
चावल (3/4 कटोरी)	2.25 g
चपाती (2)	4.68 g
	10.93 g

प्रोटीन से मांसपेशियों का रखरखाव



मांसपेशियों का महत्व

मसल्स केवल पहलवानों को ही
बही चाहिए ...



रोजमर्रा के कामों के
लिए भी मसल्स चाहिए

प्रोटीन मसल्स को कायम रखने के लिए आवश्यक है

मसल्स को बनाने के
लिए आहार व एक्सरसाइज
दोनों जरुरी हैं

आहार
पर्याप्त प्रोटीन

व्यायाम



हम कैसे बदल रहे हैं ?



स्फूर्ति



आनस्य

प्रोटीन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है

आटा, दाल, चावल
अपूर्ण प्रोटीन हैं
मैदा पेट में चिपकता है



सोया प्रोटीन
संपूर्ण शाकाहारी
प्रोटीन


रोटी - दाल - चावल को
संतुलित मात्रा में आएं और
साथ में सप्लीमेंट्स भी लें



फैट व हानिकारक तत्वों से रहित आयसोलेटेड सोया प्रोटीन



साधारण सोयाबीब



सोयाबीब तेल



चुविंदा सोयाबीब



सोयाबीब का आव




झूपों प्लांट



आयसोलेटेड
सोया प्रोटीन



आयसोलेटेड सोया प्रोटीन के फायदे



सोया का सत्त्व है
उच्च गुणवत्ता वाला आसानी
से तन को लगाने योग्य
संपूर्ण प्रोटीन

पूर्णतः शाकाहारी

फैट व कोलेस्ट्रॉल रहित

आयसोलेटेड सोया प्रोटीन

अमेरिका से

फायबर

जापान से

कोकोआ


बेलिजियम से



प्रोटीन व फायबर के साथ - साथ
मिनरल्स व विटामिन्स भी आवश्यक हैं



विटामिन्स - मिनरल्स



प्रोटीन

शरीर की
बुनियादी
संरचना का
आधार

बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ



वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रत्येक विटामिन व मिनरल का आरडीए भी दिया गया है

Arabic 中文 English Français Русский Español

World Health Organization

RSS YouTube Twitter Facebook Google+ Print

Health topics Data Media centre Publications Countries Programmes About WHO Search

Nutrition

Nutrition home Nutrition topics Databases Publications Collaborating centres Regional offices About us

Dietary recommendations / Nutritional requirements

Establishing human nutrient requirements for worldwide application

The Department of Nutrition for Health and Development, in collaboration with FAO, continually reviews new research and information from around the world on human nutrient requirements and recommended nutrient intakes. This is a vast and never-ending task, given the large number of essential human nutrients. These nutrients include protein, energy, carbohydrates, fats and lipids, a range of vitamins, and a host of minerals and trace elements.

Many countries rely on WHO and FAO to establish and disseminate this information, which they adopt as part of their national dietary allowances. Others use it as a base for their standards. The establishment of human nutrient requirements is the common foundation for all countries to develop food-based dietary guidelines for their populations.



विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक क्या कहते हैं ?

रोजाना आहार के 7 जरूरी तत्व नियमित मात्रा
आरडीए में लेना चाहिए



विश्व स्वास्थ्य
संगठन

